



करेंट अपेयर्स

झारखंड

जून

2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: [online@groupdrishti.com](mailto:online@groupdrishti.com)

# अनुक्रम

<b>झारखंड</b>	<b>3</b>
➤ वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका 'वित्त विभाग बुलेटिन 'जारी	3
➤ 'हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022' को मिली मंजूरी	3
➤ हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक-2022 जारी	3
➤ हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय	5
➤ अस्मिता दोरजी	5
➤ इवेंट वेहिकल मैनेजमेंट सिस्टम	5
➤ IIT (ISM) के वैज्ञानिकों ने भूजल से आर्सेनिक को हटाने के लिये अवशोषक विकसित किया	6
➤ हजारीबाग के बादम में मिला मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआँ	6
➤ झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूल के कर्मियों को मिलेगा अंशदायी पेंशन योजना का लाभ	7
➤ गुरु सुशांत महापात्र 'गुरु ब्रह्मा अवार्ड' से सम्मानित	7
➤ देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू होगी घरेलू उड़ानें	8
➤ झारखंड के वन क्षेत्र से 5 किमी. के दायरे में सभी आरा मिल हटाने के आदेश	8
➤ राँची की कृतिका को मुंबई में मिला इंपैक्ट अवार्ड	9
➤ 15वीं झारखंड राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप	9
➤ मैथन डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ	9
➤ झारखंड में मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि गैर-पार्टी के आधार पर	10
➤ पश्चिमी सिंहभूम में पहली बार बहु-कौशल केंद्र के लिये समझौता ज्ञापन	10
➤ KMEH बना रेटिना सर्जरी के लिये राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान	11
➤ पंचकठिया/बाबूपुर, बरहेट, साहिबगंज में दुग्ध शीतक केंद्र का उद्घाटन	11
➤ मुख्यमंत्री ने किया विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास	11

## झारखंड

### वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका 'वित्त विभाग बुलेटिन' जारी

#### चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका 'वित्त विभाग बुलेटिन' जारी किया।

#### प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तिका का उद्देश्य हरियाणा सरकार के सभी विभागों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज को सुविधाजनक बनाना और उन्हें सतत् विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिये मानदंड प्रदान करना है।
- इस बुलेटिन में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देश और अधिसूचनाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य के बजट आवंटन के साथ-साथ सतत् विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में जिलों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित डाटा को भी शामिल किया गया है।
- इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने कहा कि यह दस्तावेज एक एकल डिपॉजिटरी के इरादे से संकलित किया गया है, जहाँ वित्त विभाग द्वारा जारी सभी निर्देश और अधिसूचनाएँ एकसाथ एक स्थान पर मिल सकेंगी।

### 'हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण ) आदेश, 2022' को मिली मंजूरी

#### चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण ) आदेश, 2022' की स्वीकृति के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

#### प्रमुख बिंदु

- इसके तहत उचित मूल्य की दुकान जारी करने के लिये 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस कम-से-कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिये दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिये एक गाँव को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। गाँव के 300 से कम राशन कार्ड के लिये भी उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- उचित मूल्य की दुकान पर विक्रय यंत्र बिंदु के माध्यम से पीडीएस के तहत बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण के बाद आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा।
- नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थी देश भर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लेने का हकदार होगा। राशन दुकान की सेवाओं को ऑनलाइन या अन्य तंत्र के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

### हरियाणा एसडीजी ज़िला सूचकांक-2022 जारी

#### चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिलों के मध्य प्रगति के मूल्यांकन के लिये 'हरियाणा एसडीजी ज़िला सूचकांक-2022' जारी किया।

## प्रमुख बिंदु

- 'हरियाणा एसडीजीसीसी जिला सूचकांक-2022' को वित्त विभाग और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने तैयार किया है।
- रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, यूएनडीपी शोको नोडा ने कहा कि जिला सूचकांक जिलों की प्रगति के मूल्यांकन करने का एक मेनफ्रेम साधन है और इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना का संचार करते हुए एसडीजी की प्राप्ति हेतु एविडेंस-ड्राइन कार्रवाई के लिये इनपुट प्रदान करता है।
- इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि एसडीजी एक्शन एजेंडे में जिलों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्होंने विभिन्न एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति करना जारी रखा है।
- एसडीजी के नोडल संस्थानों के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग और राज्य स्तर पर स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने जिलों के बीच सहयोगात्मक गति के लिये आवश्यक प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 5 अक्टूबर, 2021 को एक प्रोविजनल जिला सूचकांक फ्रेमवर्क जारी किया गया था। यह संबंधित विभागों के साथ उचित परामर्श के बाद तैयार किया गया दूसरा और अपडेटेड संस्करण है और यह 115 संकेतकों, 62 लक्ष्यों एवं 15 गोल्स पर आधारित है।
- हालाँकि, यह दूसरी रिपोर्ट भी सभी संबंधितों के परामर्श के लिये एक अंतरिम रिपोर्ट है। इस दस्तावेज को सभी हितधारकों, मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को भेजा जाएगा।
- अंतिम दस्तावेज मार्च 2023 में टिप्पणियों, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के बाद अन्य रिपोर्टों के साथ लॉन्च किया जाएगा।
- यह दस्तावेज प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और आउट फील्ड अधिकारियों के लिये एसडीजी लक्ष्यों और विजन 2030 को प्राप्त करने की दिशा में काम करने हेतु एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगा। एसडीजी 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित किये गए थे, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- इस इंडेक्स में अंबाला ने 74 के स्कोर के साथ शीर्ष जिले के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी। गुरुग्राम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पंचकूला, करनाल और यमुनानगर तालिका में तीसरे स्थान पर हैं। फरीदाबाद छठे स्थान पर है, कुरुक्षेत्र और सिरसा सातवें स्थान पर हैं।
- लक्ष्य 4 और 6 में 'फ्रंट रनर'की संख्या सबसे अधिक है, जबकि लक्ष्य 8 में सबसे अधिक 'आकांक्षी' हैं।
- एसडीजी 4, एसडीजी 10 और एसडीजी 11 में, हरियाणा का स्कोर 'परफॉर्मर'श्रेणी से 'फ्रंट रनर'श्रेणी में आ गया है।

### गोल के अनुसार टॉप जिले

लक्ष्य 1: गरीबी नहीं	गुरुग्राम
लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी	अंबाला
लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण	कैथल और जींद
लक्ष्य 4: गुणवत्तायुक्त शिक्षा	गुरुग्राम
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता	चरखी दादरी
लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और सफाई	रोहतक
लक्ष्य 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा	अंबाला
लक्ष्य 8 : अच्छा काम और आर्थिक विकास	गुरुग्राम
लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा	गुरुग्राम
लक्ष्य 10: कम असमानता	यमुनानगर
लक्ष्य 11: सतत् शहर और समुदाय	सिरसा
लक्ष्य 12: जिम्मेदार खपत और उत्पादन	कुरुक्षेत्र
लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई	यमुनानगर
लक्ष्य 15: भूमि पर जीवन	यमुनानगर
लक्ष्य 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएँ	पंचकूला

## हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

### चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के परिवारों/दिव्यांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में संशोधित नीति/निर्देशों को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

### प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की 21 अक्टूबर, 2021 की घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बल (सेना, नौसेना और वायु सेना) जो युद्ध/ऑपरेशनल क्षेत्र में, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में मारे गए/दिव्यांगकर्मियों के लिये निशक्तता के आधार पर अनुग्रह अनुदान की दरों में वृद्धि की है।
- संशोधित दरों के अनुसार, दिव्यांग सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) को 75 प्रतिशत या अधिक निशक्तता के मामले में 35 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। इससे पूर्व यह राशि 15 लाख रुपए थी।
- इसी प्रकार, 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 25 लाख रुपए तथा 25 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 15 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि क्रमशः 10 लाख और 5 लाख रुपए थी।

## अस्मिता दोरजी

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जमशेदपुर की अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किये बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर (8745 मीटर) पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है।

### प्रमुख बिंदु

- 38 वर्षीय अस्मिता टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में एक वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। इनके पिता आंग दोरजी भी एक पर्वतारोही थे, जिनकी एक मिशन के दौरान मृत्यु हो गई थी।
- अपनी माता की मृत्यु के पश्चात् 1989 में ये नेपाल से भारत आ गई, जिसके बाद इनका पालन-पोषण जमशेदपुर में भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल द्वारा किया गया, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
- माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वाधिक ऊँची चोटी (8848 मीटर) है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊँचाई है।

## इवेंट वेहिकल मैनेजमेंट सिस्टम

### चर्चा में क्यों ?

2 जून, 2022 को झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने वाहन कोषांग से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक में विचार-विमर्श के बाद इवेंट वेहिकल मैनेजमेंट सिस्टम ऐप की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया।

### प्रमुख बिंदु

- इस ऐप का प्रयोग चुनाव में प्रयुक्त वाहनों का डेटाबेस तैयार करने एवं अधिगृहीत वाहनों का त्वरित भुगतान करने के लिये किया जाएगा।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस ऐप का प्रयोग आगामी चुनावों में किया जाएगा, जिससे वाहनों के भुगतान संबंधी विवादों में कमी आएगी।
- इस ऐप के अंतर्गत गाड़ी का प्रकार, नंबर, उसके मालिक का नाम तथा चुनाव में वाहन के प्रयोग सहित गाड़ी कब्जे में लेने और मुक्त करने के समय की मीटर रीडिंग आदि विवरण उपलब्ध रहेंगे।

## IIT ( ISM ) के वैज्ञानिकों ने भूजल से आर्सेनिक को हटाने के लिये अवशोषक विकसित किया

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक शोध में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अवशोषक (adsorbent) के विकास में सफलता हासिल की है, जो भूजल से आर्सेनिक को हटाने में मदद करता है।

### प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण विज्ञान इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एस.आर. समदर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की चार सदस्यीय टीम का दावा है कि कैल्सीनेटेड लैटेराइट मिट्टी आर्सेनिक पर नैनो मैंगनीज के लेप के माध्यम से आर्सेनिक को हटाया जा सकता है।
- शोधार्थी रोशन प्रभाकर और एमटेक के दो छात्र सोमपर्णा घोष और अली ने इस शोध में मदद की।
- डॉ. समदर ने बताया कि आर्सेनिक को प्रथम श्रेणी के मानव कार्सिनोजेन के रूप में पहचाना गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पीने के पानी में इसकी अनुमेय सीमा (permissible limit) 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर निर्धारित की है।
- डॉ. समदर ने बताया कि हमने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले संसाधन से वंचित समुदाय के लिये एक सोखना आधारित स्केलेबल उपचार प्रणाली (adsorption based scalable treatment system) विकसित की है।
- उन्होंने कहा कि नैनो आधारित सोखना प्रणाली आर्सेनिक आयनों को हटाने के लिये शोधकर्ताओं के बीच लोकप्रिय रही है, लेकिन चूँकि नैनो सोखने वालों को संश्लेषित करना महँगा है, इसलिये इस शोध में नैनो कोटिंग के लिये आधार सामग्री के रूप में सस्ती और आसानी से उपलब्ध लैटेराइट मिट्टी उपयोग किया गया है।
- डॉ. समदर ने बताया कि 200 पीपीबी सांद्रता वाले 1000 लीटर पानी के उपचार के लिये लगभग 0.70 किलोग्राम लैटेराइट नैनो मैंगनीज की आवश्यकता होती है, जिसमें से अधिकांश हिस्से में लैटेराइट मिट्टी के कण होते हैं। यह प्रतिशत के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल से आर्सेनिक को हटाने में मदद कर सकता है।

## हजारीबाग के बादम में मिला मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआँ

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गाँव प्रखंड के अंतर्गत बादम में मध्यकाल का चतुष्कोणीय कुआँ मिला है। यह कुआँ कर्णपुरा राज के किले से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है।

### प्रमुख बिंदु

- पुरातात्विक विभाग, राँची के नीरज मिश्रा एवं अजहर साबिर ने बादम किले का अवलोकन किया। इन्होंने बताया कि जितने भी प्राचीन किले में कुएँ मिले हैं, सभी गोलाकार कुएँ हैं, लेकिन यह चतुष्कोणीय कुआँ है। इसकी खुदाई करने के बाद ही इसकी खासियत का पता चल सकता है।
- यह कुआँ कर्णपुरा राज के छठे राजा हेमंत सिंह के समय का माना जा रहा है। राजा हेमंत सिंह ने लगभग 57 वर्ष तक (1604 से 1661) शासन किया था।
- राजा हेमंत सिंह ने बादम किला को काफी मजबूत बनवाया था। इसके लिये उन्होंने पटना से कई कारीगरों को बुलवाया। किला बनाने के लिये बदमाही (हहारो नदी) के सबसे ऊँचे स्थान को चुना गया था। इसका निर्माण कार्य 1642 ई. में पूरा हुआ।
- इस किले का मुख्य द्वार, जिसे सिंह दरवाजा कहा जाता है, आज भी जर्जर स्थिति में मौजूद है। ये दो मंजिल का है। ऊपरी मंजिल में जाने के लिये सीढ़ी बनाई गई थी। दोनों मंजिलों में दो-दो कमरे बने थे। गर्मी के दिनों में भी इसके कमरों में ठंड का एहसास होता है।

## झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूल के कर्मियों को मिलेगा अंशदायी पेंशन योजना का लाभ

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है।

### प्रमुख बिंदु

- झारखंड के 836 प्रारंभिक सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा 134 माध्यमिक अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- इसके तहत इन स्कूलों के उन कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जो 1 दिसंबर, 2004 या इसके बाद नियुक्त हैं।
- गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ बनाम राज्य सरकार के मामले में पारित आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया है। इसमें उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के प्रजेंटेशन पर आवश्यक निर्णय लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया था।
- विभाग द्वारा इन स्कूलों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने को लेकर जारी घोषणा में कहा गया है कि चूँकि इनकी नियुक्ति विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से हुई है, इसलिये समिति को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी 'नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड' से निर्बंधित होना होगा। साथ ही प्रत्येक कर्मियों को योगदान के साथ ही परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर लेना होगा।
- कर्मियों के मूल वेतन तथा अनुमान्य जीवनयापन भत्ता में से दस प्रतिशत राशि से काटी जाएगी, जो नियोक्ता अंशदान के रूप में एनपीएस खाता में जमा की जाएगी।

## गुरु सुशांत महापात्र 'गुरु ब्रह्मा अवार्ड' से सम्मानित

### चर्चा में क्यों ?

10 जून, 2022 को ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड राज्य के सरायकेला छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने वाले वरिय कलाकार गुरु सुशांत महापात्र को 'गुरु ब्रह्मा अवार्ड' दिया गया।

### प्रमुख बिंदु

- ओडिशा के कल्चरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मेगा डांस फेस्टिवल 'अप्सरा-2022' में हाईटेक ग्रुप के चेयरमैन डॉ. तिरुपति पाणिग्रही ने अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति-पत्र देकर महापात्र को सम्मानित किया।
- गुरु सुशांत महापात्र द्वारा बनाए गए छऊ मुखौटे की प्रदर्शनी देश-विदेश में लगाई जा चुकी है, उनके द्वारा तैयार किये गए सरायकेला शैली छऊ मुखौटे का प्रदर्शन सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क, बर्लिन, वियाना के अलावा देश की राजधानी दिल्ली सहित मुंबई, कोलकाता एवं अन्य बड़े शहरों में किया जा चुका है।
- गुरु सुशांत महापात्र द्वारा निर्मित मुखौटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट किया जा चुका है।
- विदित है कि वर्ष 1925 में उनके बड़े पिताजी प्रशन्न कुमार महापात्र ने सरायकेला शैली छऊ के लिये पहला आधुनिक मुखौटा तैयार किया था।
- सुशांत महापात्र ने 8 वर्ष की उम्र में ही अपने बड़े पिताजी (गुरु प्रशन्न महापात्र) की प्रेरणा से मुखौटा का निर्माण शुरू किया था। इसके पश्चात् इस मुखौटा का प्रचलन बढ़ने लगा और अब यही मुखौटा की सरायकेला शैली छऊ नृत्य की पहचान बन गई है।

## देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू होगी घरेलू उड़ानें

### चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2022 को देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढींगरा ने बताया कि आगामी 15 जुलाई से शुरू होने वाले विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले के पहले नवनिर्मित देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

### प्रमुख बिंदु

- इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को करेंगे। गौरतलब है कि इस एयरपोर्ट का ऑनलाइन शिलान्यास 25 मई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था।
- यह झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन पहले फेज में यहाँ से घरेलू उड़ान सेवाएँ शुरू की जाएंगी। देवघर राज्य का पहला एयरपोर्ट होगा, जहाँ से भविष्य में विदेशों के लिये भी सीधी उड़ान सेवाएँ शुरू की जा सकेंगी।
- पूरे राज्य में फिलहाल मात्र रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट (Birsa Munda Airport) से नियमित घरेलू उड़ान सेवाएँ संचालित हो रही हैं।
- गौरतलब है कि डीजीसीए ( डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ) ने देवघर एयरपोर्ट को घरेलू उड़ानों के लिये 11 अप्रैल, 2022 को ही लाइसेंस जारी कर दिया था। इसके बाद 8 जून को इस एयरपोर्ट से इंडिगो की एयर बस-320 ने ट्रायल के तौर पर उड़ान भरी थी।
- देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढींगरा ने बताया कि यहाँ से पहले दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और राँची के लिये नियमित उड़ान सेवा शुरू होगी। इसके लिये इंडिगो और स्पाइसजेट ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है। एयर एशिया समेत अन्य विमानन कंपनियों ने भी देवघर एयरपोर्ट से अपनी सेवाएँ देने की इच्छा जाहिर की है।
- इस एयरपोर्ट का निर्माण लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें 50 फीसदी अंशदान डीआरडीओ का है। एयरपोर्ट की इमारत पर यहाँ के विश्वप्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। इस पर ब्रास से पंचशूल बनाया गया है, जो दूर से ही दिखता है। ऐसा ही पंचशूल बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भी है।
- देवघर में प्रतिवर्ष सावन में एक महीने तक विशाल श्रावणी मेले का आयोजन होता है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिदिन करीब एक से डेढ़ लाख श्रद्धालु पहुँचते हैं। मेले के पहले यहाँ से उड़ान सेवाएँ शुरू होने से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी।
- फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट से सेवाएँ शुरू होने से व्यापार और उद्योग की संभावनाओं को भी विस्तार मिलेगा।

## झारखंड के वन क्षेत्र से 5 किमी. के दायरे में सभी आरा मिल हटाने के आदेश

### चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग को वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरा मिल हटाने के आदेश जारी किये हैं।

### प्रमुख बिंदु

- राज्य के मुख्यमंत्री ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से पाँच किमी. के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलराइज करने का आग्रह किया गया था।
- हेमंत सोरेन के इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव आने वाले दिनों में राज्य के जंगल और पर्यावरण पर दिखेगा। इससे जंगलों में लकड़ियों की हो रही अवैध कटाई पर भी लगाम लगेगी। साथ ही, जंगली जीव, जंगल और वनस्पति भी संरक्षित हो सकेंगे।
- ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित अवैध खदान को बंद करने का भी सख्त निर्देश दिया था। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जिस जिले में अवैध खदान संचालित होंगे, उस जिले के सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
- इसका सबसे ज्यादा फायदा कोयलांचल क्षेत्र के लोगों को हुआ है, जहाँ अवैध खदान के कारण कई बार दुर्घटनाएँ हुई हैं, वहीं खदान में बार-बार विस्फोट करने से प्रदूषण सहित उनके घरों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

## राँची की कृतिका को मुंबई में मिला इंपैक्ट अवार्ड

### चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2022 को झारखंड राज्य की राजधानी राँची की कृतिका सिंह को मुंबई में आयोजित समारोह में इंपैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृतिका को यह अवार्ड पद्मश्री प्रसून जोशी ने प्रदान किया।

### प्रमुख बिंदु

- 28 वर्षीय कृतिका को यह अवार्ड अंडर-30 में प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करना, लोगों की सहायता और देश के अहम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये दिया गया है।
- कृतिका वर्तमान में वेवमेकर ग्लोबल के लिये कंटेंट ग्रुप हेड के रूप में काम कर ही हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है।
- इससे पहले कृतिका को वर्ष 2016 में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिये एमएसएल ग्रुप मेस्ट्रो अवार्ड इंडिविजुअल से भी सम्मानित किया जा चुका है।
- कृतिका ओटीटी प्लेटफार्म, वेब कंटेंट, टीवी पार्टनरशिप, मार्केटिंग स्पॉन्सरशिप तथा मार्केटिंग इंप्लूएंसर के रूप में अहम प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी हैं।
- सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा कृतिका भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड टीकाकरण तथा 'मलेरिया नो मोर' अभियान में कृतिका ने अहम योगदान दिया था।

## 15वीं झारखंड राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप

### चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2022 को शानदार प्रदर्शन और दिलचस्प प्रतियोगिताओं के साथ, टाटा स्टील के नोवामुंडी बॉक्सिंग सेंटर (एनबीसी) में 15वीं झारखंड स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ।

### प्रमुख बिंदु

- तीन दिवसीय हाई-ऑक्टेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 11 जिलों के 132 से अधिक मुक्केबाजों ने भाग लिया।
- इस प्रतियोगिता को दो श्रेणियों, जूनियर (लड़का और लड़की) और युवा (पुरुष और महिला) में विभाजित किया गया था।
- इस प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम की पलक कुमारी, अन्नू पांडे और राहुल कुमार ने क्रमशः जूनियर (लड़की) और युवा (महिला और पुरुष) श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार जीता, जबकि सूरज राणा, पश्चिमी सिंहभूम ने जूनियर (लड़का) वर्ग में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार जीता।
- वहीं पूर्वी सिंहभूम ने जूनियर (लड़के और लड़कियों) और युवा (पुरुष और महिला) वर्ग में टीम चैंपियन का पुरस्कार जीता।
- राँची ने उपविजेता पुरस्कार प्राप्त किया और धनबाद और पश्चिम सिंहभूम ने क्रमशः युवा (पुरुष और महिला) में उपविजेता पुरस्कार प्राप्त किया।

## मैथन डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ

### चर्चा में क्यों ?

20 जून, 2022 को झारखंड के धनबाद जिले में स्थित मैथन डैम में तीनदिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ हुआ।

### प्रमुख बिंदु

- झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से मैथन में गोगना स्पोर्ट्स हॉस्टल के समीप पहली बार आयोजित की जा रही एडवेंचर एक्टिविटी में पैरासेलिंग, वालक्लाईमबिंग, सर्किंग, कयाकिंग, रिंगो राइडिंग, जेट स्काइंग आदि शामिल हैं।
- मैथन डैम में एडवेंचर एक्टिविटी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देकर मैथन डैम को राज्य का प्रतिष्ठित एडवेंचर स्पोर्ट्स केंद्र बनाना है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में झारखंड में आयोजित किये गए 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान वाटर स्पोर्ट्स के कई इवेंट मैथन डैम में आयोजित किये गए थे, जिनमें कयाकिंग व केनोइंग खेल शामिल हैं।

## झारखंड में मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि गैर-पार्टी के आधार पर

### चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत झारखंड में मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि गैर-पार्टी के आधार पर होगा।

### प्रमुख बिंदु

- बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी। हालाँकि मंदार उप-चुनाव के मदेनजर लागू आदर्श आचार संहिता के चलते कैबिनेट के फैसलों पर प्रेसवार्ता नहीं हुई।
- लेकिन सूत्रों ने बताया कि सबसे अहम प्रस्ताव शहरी विकास विभाग को लेकर आया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। वहीं, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होगा, लेकिन नगर निगम और नगर निकायों के पार्षद मिलकर डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। इस संबंध में लाए गए नियमों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
- बैठक में पुलिस नियुक्ति नियमों में भी संशोधन किया गया, जिसके तहत अब उम्मीदवारों को पहले दौड़ पूरी करनी होगी, उसके बाद ही उनकी लिखित परीक्षा होगी।

## पश्चिमी सिंहभूम में पहली बार बहु-कौशल केंद्र के लिये समझौता ज्ञापन

### चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2022 को पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन (टीएसएफ) के बीच बहु-कौशल केंद्र की स्थापना के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

### प्रमुख बिंदु

- इस समझौते पर अनन्या मित्तल (आईएएस), (उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम) और सौरव राँय (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा स्टील फाउंडेशन) ने हस्ताक्षर किये।
- यह केंद्र क्षमता निर्माण और इस क्षेत्र में मुख्यरूप से आदिवासी समुदायों के युवाओं के बीच रोजगार सृजन तथा उद्यमिता के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक बहु सेट प्रदान करेगा।
- टाटा स्टील फाउंडेशन केंद्र के नियमित रखरखाव के साथ ही प्रारंभिक बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने का कार्यभार संभालेगा। इसके अलावा प्रशिक्षण भागीदारों, प्रशिक्षकों और उपकरणों की व्यवस्था को भी टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया जाएगा।
- केंद्र सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान को ध्यान में रखते हुए यह केंद्र आपूर्ति श्रृंखला में गोदाम पैकेजिंग, ऑटो सेवा तकनीशियन, सहायक तकनीशियन और मोबाइल असंबली सहित चार पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होगा। ये सभी तीन-छह महीने के पाठ्यक्रम हैं।
- इस तरह के कार्यक्रमों को कौशल विकास पर सार्थक विकल्पों के साथ सबसे कमजोर पृष्ठभूमि के युवाओं तक पहुँचाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जो आय सृजन के माध्यम से एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करेगा।

- एक बार तैयार हो जाने पर यह केंद्र बहुत सारे युवाओं के लिये रोजगार सुनिश्चित करेगा, जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और अंततः देश भर के औद्योगिक क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग को पूरा करने में योगदान देंगे।

## KMEH बना रेटिना सर्जरी के लिये राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राँची स्थित कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को देश के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा विट्रो रेटिनल सर्जरी में फेलोशिप अध्ययन के लिये मान्यता दी गई है।

### प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही यह पूर्वी भारत में रेटिना सर्जरी के लिये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान बन गया है।
- राज्य में रेटिना सर्जरी की पहल का श्रेय भी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को ही जाता है। अस्पताल का रेटिना विभाग डॉ. विभूति कश्यप की देखरेख में चलाया जाता है, जो एम्स में प्रशिक्षित डबल एफ.आर.सी.एस. रेटिनल सर्जन हैं।
- इस अस्पताल में राज्य के सबसे ज्यादा नेत्रहीन मरीज ठीक हुए हैं। आँखों की रेटिना की सर्जरी को आँखों की सबसे जटिल सर्जरी माना जाता है। यह आँखों का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन है।
- तीन साल पहले बिहार के झारखंड के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में ही पहली बार रेटिना और आँखों की नसों की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जाँच की सुविधा भी शुरू की गई थी। यह परीक्षण वर्तमान में केवल कश्यप मेमोरियल नेत्र अस्पताल में उपलब्ध है।
- यह दिल के ईसीजी की तरह है और इस टेस्ट में किसी डाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह परीक्षण हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, मधुमेह और रक्तचाप के रोगियों के लिये बहुत सुरक्षित है।

## पंचकठिया/बाबूपुर, बरहेट, साहिबगंज में दुग्ध शीतक केंद्र का उद्घाटन

### चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचकठिया/बाबूपुर, बरहेट, साहिबगंज में दुग्ध शीतक केंद्र का उद्घाटन किया।

### प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों में दुग्ध कलेक्शन कराने वालों दूध की उचित कीमत मिलेगी और राज्य सरकार बाजार मूल्य 2 रुपए प्रति लीटर सम्मान राशि भी देगी।
- साथ ही, मेधा डेयरी में निर्मित दुग्ध उत्पादों का आँगनबाड़ी केंद्रों में इस्तेमाल किया जाएगा।
- किसानों और दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गाँवों में दुग्ध शीतक केंद्र खोले जा रहे हैं।
- पशुपालकों द्वारा दुग्ध शीतक केंद्रों में जो दूध उपलब्ध कराया जाएगा, उसकी राज्य के बड़े डेयरी प्लांटों में प्रोसेसिंग की जाएगी। इसके उपरांत दूध और दूध से बने उत्पादों को राज्य के हर इलाके में बिक्री के लिये भेजा जाएगा। इन उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का सरकार काम करेगी।

## मुख्यमंत्री ने किया विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास

### चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डमरूहाट, सुंदरपहाड़ी, गोड्डा में नियुक्ति-पत्रों का वितरण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति का वितरण किया।

### प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुपोषित गोड्डा योजना का शुभारंभ तथा संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया।
- इस योजना के तहत गोड्डा जिले के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति हेतु विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 18001.17 लाख रुपए की 79 योजनाओं का उद्घाटन एवं 12598.28 लाख रुपए की 10 महती योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
- इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 170 लोगों को विभिन्न विभागों से जुड़े नियुक्ति-पत्र वितरित किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सोना सोबरण योजना, राशन कार्ड वितरण, मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, फूलों-झानों आशीर्वाद योजना समेत अन्य योजनाओं के तहत 2573 लाभुकों के बीच कुल 1767.10 लाख रुपए की परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया।
- मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम में गोड्डा की तनु कुमारी, जिन्होंने बोर्ड एजाम में 97% लाकर पूरे राज्य में संथाल परगना का नाम रोशन किया है, को सम्मानित किया गया।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में पहले स्थान पर हैं, उन्हें 3 लाख रुपए की राशि, दूसरे स्थान पर 2 लाख और तीसरे स्थान पर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

**दृष्टि**  
*The Vision*